

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21—नवम्बर 27, 2015 (कार्तिक 30, 1937)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21—NOVEMBER 27, 2015 (KARTIKA 30, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

हरियाणा वक्फ बोर्ड

अम्बाला छावनी, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

शुद्धिपत्र

सं. वक्फ/45(जनरल)/पब्लिश/520/07/4985—अधिसूचना संख्या 45(जनरल)/83/3503, दिनांक 05.04.1983 जो कि भारत सरकार के राजपत्र, भाग—III, सैक्शन—4, दिनांक 23.04.1983, पृष्ठ संख्या 2354 की क्रम संख्या 1 पर गलती से छप गया था को रद्द/वापिस लिया जाता है क्योंकि उक्त वक्फ सम्पदा की अधिसूचना पहले ही भारत सरकार के राजपत्र, भाग—III, सैक्शन—4, दिनांक 22.04.1978, पृष्ठ संख्या 987 पर प्रकाशित हो चुका था।

उक्त अधिसूचना में अंकित खसरा नं. 1993 रकबा 01बीघा—11 बिस्वा के स्थान पर 01 बीघा—12 बिस्वा पढ़ा जाए जो जमाबन्दी, फील्डबुक, नकल खसरा, किश्तवार, कस्बा नारनौल, वर्ष 1932 के अनुसार है।

मुहम्मद आकिल, आई पी एस
प्रशासक—एवं—मुख्य कार्यकारी अधिकारी

HARYANA WAQF BOARD

Ambala Cantt., the 31st October 2015

CORRIGENDUM

No. Waqf/45(Gen.)/Pub./520/07/4985—An addenda inadvertently published vide notification No. 45(Gen.)/83/3503, dated 05.04.1983 in the Gazette of India, Part-III, Section 4, dated 23.04.1983 at page 2354 at Sr. No. 1 may be treated as cancelled/withdrawn as the said waqf property had already been published in the Gazette of India, Part-III, Section 4, dated 22 April, 1978 at Page 987.

The area mentioned in the said notification as 01B-11B may be read as 01B-12B of Khasra No. 1993 as per Jamabandi, Field Book, Nakal Khasra Kishtwaar, Kasba Narnaul for the year 1932.

MUHAMMAD AKIL, IPS
Administrator-cum-CEO

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in